

B.Com. (Part—III) Examination
FUNDAMENTALS OF INSURANCE
(Banking and Insurance)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

N.B. :- (1) All questions are compulsory

(2) All questions carry equal marks.

1. (a) What is Insurance ? Discuss the role of insurance as a social security tool. 14

OR

(b) Define Insurance and explain the principles of Insurance. 14

2. (a) Explain the definition of Insurance Agent. 4

(b) Explain the functions of Insurance Agent. 4

(c) Explain the remuneration of Insurance Agent. 3

(d) Explain the required qualification for an Insurance Agent. 3

OR

(e) Write in brief validity of Insurance Agent. 4

(f) Explain the code of conduct of an Insurance Agent. 4

(g) Give the causes of termination of an Insurance Agency. 3

(h) Explain the procedure of obtaining an Agency. 3

3. (a) Explain the settlement of policy claim procedure of Life Insurance. 14

OR

(b) What is Crop Insurance ? Explain the importance of Crop Insurance. 14

4. (a) What is Actuarial ? 4

(b) Explain the functions of Actuary. 4

(c) Explain the market promotion strategy. 3

(d) Explain the important activities of marketing in the Insurance Business. 3

OR

(e) Explain the organizational set-up of LIC. 4

(f) State the determination of Product Pricing. 4

(g) Explain the concept of Insurance Marketing. 3

(h) Explain in brief, distribution channels of Insurance. 3

5. (a) State the features of IRDA. 4

(b) Explain any four provisions of LIC Act, 1956. 4

(c) Explain the duties of IRDA. 3

(d) Explain the functions of General Insurance Business Act, 1972. 3

OR

(e) How to control Private Insurance Companies ? 4

(f) State the amendments in IRDA Act, upto 2012. 4

(g) Explain in brief IRDA Act, 2000. 3

(h) Explain the provisions regarding regulation of Claim Settlement. 3

B.Com. (Part—III) Examination
FUNDAMENTALS OF INSURANCE
(Banking and Insurance)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

नोट :- (1) पाचही प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत

1. (अ) विमा म्हणजे काय ? सामाजिक सुरक्षापेक्षा साधन म्हणून विमांच्या भूमिके विषयी चर्चा करा 14
किंवा
(ब) विमांची व्याख्या द्या आणि विमांची तत्वे स्पष्ट करा. 14
2. (अ) विमा प्रतिनिधीची व्याख्या स्पष्ट करा. 4
(ब) विमा प्रतिनिधीची कार्ये स्पष्ट करा. 4
(क) विमा प्रतिनिधीचा मोबदला स्पष्ट करा. 3
(ड) विमा प्रतिनिधी साठी आवश्यक सवलत स्पष्ट करा 3
किंवा
(इ) विमा प्रतिनिधीच्या वैधतेबद्दल संक्षिप्त माहिती लिहा. 4
(फ) विमा 'अभीकर्तृत्वाची' आचार संहिता स्पष्ट करा. 4
(ग) विमा अभीकर्तृत्वाच्या बडतर्फीची कारणे सांगा 3
(ह) विमा अभीकर्तृत्व प्राप्त करण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करा 3
3. (अ) जीवन विमा द्यास निकालित काढण्याची कार्ये पद्धती स्पष्ट करा 14
किंवा
(ब) पिक विमा म्हणजे काय ? पिक विमाचे महत्त्व स्पष्ट करा. 14
4. (अ) विमांकन म्हणजे काय ? 4
(ब) विमांकनाची कार्ये स्पष्ट करा. 4
(क) विपणन संवर्धनाची व्यूहरेचना स्पष्ट करा 3
(ड) विमा व्यवसायातील विपणनाच्या महत्त्वाच्या कृती स्पष्ट करा. 3
किंवा
(इ) जीवन विमा महामंडळाची संघटनात्मक रचना स्पष्ट करा. 4
(फ) उत्पादन किंमत निर्धारणाचे घटक सांगा 4
(ग) विमा विपणनाची संकल्पना स्पष्ट करा. 3
(ह) विमा वितरण संक्षिप्तपणे स्पष्ट करा 3
5. (अ) IRDA ची वैशिष्ट्ये सांगा 4
(ब) जीवन विमा महामंडळ कायदा 1956 च्या कोणत्याही चार तरतुदी स्पष्ट करा. 4
(क) IRDA ची कार्ये स्पष्ट करा. 3
(ड) सामान्य विमा व्यवसाय कायदा 1972 ची कार्ये स्पष्ट करा 3
किंवा
(इ) खजगी विमा कंपन्यांचे नियंत्रण कसे केले जाते ? 4
(फ) IRDA Act, मधील 2012 पर्यन्तच्या सुधारणा सांगा. 4
(ग) IRDA Act, 2000 संक्षिप्तपणे स्पष्ट करा 3
(ह) दावे निकालित काढण्याच्या नियमणाच्या तरतुदीची चर्चा करा 3

B.Com. (Part—III) Examination
FUNDAMENTALS OF INSURANCE
(Banking and Insurance)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

नोट :- (1) सभी पाँच प्रश्न अनिवार्य हैं।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (अ) बीमा याने क्या ? सामाजिक सुरक्षा का एक साधन करके बीमा की भूमिका की चर्चा कीजिए। 14
अथवा
(ब) बीमा की परिभाषा दीजिये और बीमा के मूलतत्त्व स्पष्ट कीजिये। 14
2. (अ) बीमा अभिकर्ता की परिभाषा स्पष्ट कीजिये। 4
(ब) बीमा अभिकर्ता के कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिये। 4
(क) बीमा अभिकर्ता का मोबदला स्पष्ट कीजिये। 3
(ड) बीमा अभिकर्ता बनने की आवश्यक पात्रता स्पष्ट कीजिये। 3
अथवा
(इ) बीमा अभिकर्ता की वैधता के बाबत संक्षेप में लिखिये। 4
(फ) बीमा अभिकर्ता की आचार संहिता स्पष्ट कीजिये। 4
(ग) बीमा के अभिकर्तृत्व के निलंबन के कारण बतलाइये। 3
(ह) बीमा अभिकर्तृत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया बतलाइये। 3
3. (अ) जीवन बीमा का दावा निपटारा करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिये। 14
अथवा
(ब) फसल बीमा (Crop Insurance) याने क्या ? फसल बीमा का महत्व स्पष्ट कीजिये। 14
4. (अ) बीमांकन (Actuarial) याने क्या ? 4
(ब) बीमांकन के कार्य स्पष्ट कीजिये। 4
(क) विपणी संवर्धन की व्यूहरचना स्पष्ट कीजिये। 3
(ड) बीमा व्यवसाय में विपणन की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ स्पष्ट कीजिये। 3
अथवा
(इ) जीवन बीमा निगम की संघटनात्मक संरचना स्पष्ट कीजिये। 4
(फ) उत्पादन की कीमत निर्धारण के कारक बताइये। 4
(ग) बीमा विपणन की संकल्पना स्पष्ट कीजिये। 3
(ह) बीमा वितरण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये। 3
5. (अ) IRDA की विशेषताएं बताइये। 4
(ब) जीवन बीमा अधिनियम 1956 के कोई भी चार प्रावधानों को स्पष्ट कीजिये। 4
(क) IRDA के कार्य स्पष्ट कीजिये। 3
(ड) सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 के कार्य स्पष्ट कीजिये। 3
अथवा
(इ) निजी बीमा कंपनियों का नियंत्रण कैसे किया जाता है ? 4
(फ) IRDA Act, में 2012 तक की सुधारणा बताइये। 4
(ग) IRDA Act, 2000 संक्षेप में स्पष्ट कीजिये। 3
(ह) दावे निपटारा नियमन संबंधी प्रावधानों की चर्चा कीजिए। 3

